



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ 1946 (श0)
(सं0 पटना 595) पटना, सोमवार, 8 जुलाई 2024

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश
27 जून 2024

सं० का०आ०सं०-5/आर०एल०-40-39/2024 श्र0सं0-3440—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 111/लो.से.आ./गो. दिनांक 21.02.2024 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित निम्न अभ्यर्थी को बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन स्तर-07 (44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान देने की तिथि से औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-9 में अंकित प्रखण्ड/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	अनुक्रमांक	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि	गृह जिला	पदस्थापन का स्थान	
							प्रखण्ड	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	श्री अंकुर राय	13-10-89	178706	171	01	सिवान	कटैया	गोपालगंज

2. यह औपबंधिक नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनाएँ भविष्य में गलत पाये जाने अथवा सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

3. अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. नवनियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। अभ्यर्थी के लिए बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. बिहार पेंशन नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31.08.2005, एवं संकल्प संख्या-768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S.) लागू होगी।
7. सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-2082, दिनांक 01.04.2003 के अनुपालन में अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल रूप में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
8. नवनियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक-12.07.2024 तक अपना योगदान समर्पित करेंगे। ससमय योगदान नहीं करने पर अभ्यर्थी का साक्ष्य सहित अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।
9. यदि अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत हैं, उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।
11. योगदान करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी का योगदान किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा अथवा योगदान स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को सीधे मुख्यालय से संपर्क करने का परामर्श दिया जाना आवश्यक होगा।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 595-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>